

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 मई 2016—वैशाख 22, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 मई 2016

शुद्धि-पत्र

क्र. 7585-40-21-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 169, दिनांक 5 अप्रैल 2016 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 14 सन् 2016) में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिए गए शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं:—

सारणी

| अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा चिन्ह (1) | राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियों जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं (2) | शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3) | |
|---|--|--|------------|
| (1) विक्रय, या | पृष्ठ 338 | पंक्ति 18वीं | विक्रय; या |
| (2) कोलन | 338(1) | 14 वीं | सेमी कोलन |
| (3) कोलन | 338(2) | 26वीं | सेमी कोलन |
| (4) | 338(3) | 22वीं पंक्ति के सामने | 4''; |
| (5) 56क | 338(4) | पहली | 56-क |
| (6) Colon | 338 (6) | 14 | semi-colon |

| (1) | (2) | (3) | |
|--|--------|-----|---|
| (7) in | 338(6) | 25 | is |
| (8) or, | 338(7) | 9 | or |
| (9) there | 338(7) | 13 | then |
| (10) amoun | 338(7) | 15 | amount |
| (11) colon | 338(7) | 27 | semi-colon |
| (12) (CAC | 338(7) | 41 | (CAC) |
| (13) geyser”. | 338(8) | 12 | geyser”, |
| (14) ”20-B. Canteen stores sold by a 4”; registered dealer to the central Police Canteen | 338(8) | 16 | 20B. Canteen Stores 4”; sold by a registered dealer to the central Police Canteen |
| (15) katori, | 338(8) | 22 | katori |
| (16) columns | 338(9) | 10 | columns, |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.